

प्रेस नोट दिनांक 15-07-2022

## पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर महोदय द्वारा परेड ग्राउण्ड में परेड की सलामी ली गयी व परेड का निरीक्षण किया गया ।

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 15-07-2022 को पुलिस लाइन्स परेड ग्राउण्ड में परेड की सलामी ली गयी एवं परेड का निरीक्षण किया गया । तदोपरान्त महोदय द्वारा जवानों को चुस्त-दुरुस्त बनाये रखने के लिए सभी जवानों को परेड ग्राउण्ड पर दौड़ाया गया उसके बाद उन्हें तेज चाल/धीरे चाल में चलाकर ड्रिल कराया गया । तदोपरान्त महोदय द्वारा थानों से आई चार पहिया वाहनों, पीआरवी वाहनों व मोटरसाइकिल दस्ता के आवश्यक उपकरण आदि की सघनता से जांच की गयी, सब्सिडियरी पुलिस कैंटीन, जिम, क्वार्टर गार्ड, बारबर शॉप, गैस गोदाम, पुलिस भोजनालय, बैरक आदि की निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, तत्पश्चात महोदय द्वारा आदेश कक्ष की कार्यवाही की गई ।

परेड/निरीक्षण के दौरान श्री देवी गुलाम, पुलिस उपाधीक्षक बांसी/ लाइन्स, प्रभारी प्रतिसार निरीक्षक, नि० श्री मोतीलाल यादव, पीआरओ० पुलिस अधीक्षक व पुलिस लाइन में नियुक्त अधि०/कर्म०गण मौजूद रहें ।

उक्त के साथ ही साथ जनपद के समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्षगण द्वारा अपने अपने थानों पर अपने अधीनस्थ नियुक्त समस्त पुलिसकर्मियों के साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने हेतु पीटी/परेड कराई गयी ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11-06-2022

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा कराए गए पब्लिक अप्रूवल रेटिंग के तहत कराये गये वोटिंग में सिद्धार्थनगर पुलिस को 12652 लोगों द्वारा दिया अपना फीडबैक

अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार द्वारा कराये गए पब्लिक अप्रूवल रेटिंग / सर्वेक्षण के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस की कार्य प्रणाली (ट्विटर, डायरेक्ट पोल, यू०पी०-112, आईजीआरएस० एवं जनपद के समस्त थानों पर पंजीकृत अभियोगों (प्रथम सूचना रिपोर्ट / एनसीआर) के सम्बन्ध में पूर्व में कराये वोटिंग में जनपद सिद्धार्थनगर को डायरेक्ट पोल पर 1581, ट्वीटर पोल पर 2107, यूपी 112 के पोल पर 716, वादियों द्वारा पंजीकृत कराए गए एफ०आई०आर०/एन०सी०आर० पर 508 व आई०जी०आर०एस० में 459 व्यक्ति कुल 4544 व्यक्तियों द्वारा अपना अपना फीड बैक दिया गया । सिद्धार्थनगर पुलिस के कार्यों का डायरेक्ट पोल कुल फीडबैक का 89.3 प्रतिशत लोगों द्वारा अतिउत्तम, ट्वीटर पोल पर कुल फीड बैक का 84.1 प्रतिशत, एफ०आई०आर / एन०सी०आर० में कुल फीडबैक का 74 प्रतिशत, यूपी 112 के कुल फीड बैक का 77.7 प्रतिशत व आई०जी०आर०एस० में कुल फीडबैक का 24.8 प्रतिशत अतिउत्तम वोटिंग प्रतिशत रहा ।

**प्रेस नोट दिनांक:- 15.07.2022 थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर  
थाना कठेला समय माता पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार  
किया गया ।**

श्री अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री हरिश्चन्द्र, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक कठेला समय माता श्री सौदागर राय के नेतृत्व में आज दिनांक 15.07.2022 को थाना कठेला समयमाता पुलिस द्वारा मु0अ0स0 112/2022 धारा 3(1) उ0 प्र0 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त बुद्धिराम पुत्र नंदप्रसाद निवासी कठेला शर्की टोला ब्रह्मपुर थाना कठेला समय माता सिद्धार्थनगर को सोनबरसा पुल से समय 09:40 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1. बुद्धिराम पुत्र नंदप्रसाद निवासी कठेला शर्की टोला ब्रह्मपुर थाना कठेला समय माता सिद्धार्थनगर

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

01. प्रभारी निरीक्षक श्री सौदागर राय थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर
2. हे0का0 गड्डू पाण्डेय थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर
03. हे0 का0 विनय जायसवाल थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर
04. का0 पन्नेलाल थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक- 15-07-2022

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना भवानीगंज का आकस्मिक निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक भवानीगंज को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया ।

आज दिनांक 15.07.2022 को श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना भवानीगंज का औचक निरीक्षण किया गया, महोदय द्वारा थाना कार्यालय/आगन्तुक कक्ष व सीसीटीएनएस/साइबर/महिला हेल्प डेस्क/ महिला परामर्श केन्द्र-नई किरण के रजिस्टर इत्यादि का गहनता से निरीक्षण किया गया एवं थाना परिसर में घूमकर चेकिंग किये । निगरानी, पैदल गश्त आदि के संबंध में श्री गौरव सिंह, प्रभारी निरीक्षक भवानीगंज को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ।